

LOOK N LEARN

Vol No. 10 • Issue No. 10 • Mumbai • October 2023 • Price : Rs 5/- (Multilingual Monthly)

*Let us lit a lamp of 5 Major
vows on each day of...*

Diwali

*Non
Stealing*

Aparigraha

Truth

Satisfaction

Ahimsa



"Cultivating virtue leads to prosperity"
A special occasion when Goodness lead
to profit when approached with a positive mindset...

"Dhanteras"

जहाँ शुभ होता है, वहीं लाभ होता है
आत्मगुणों के शुभ आगमन से... सर्व प्रकार की
समृद्धि का लाभ पाने का पावन अवसर यानी...

SHUBH



'धनतेरस'

Let us imbibe the virtues of
AHIMSA on Dhanteras
धनतेरस के पावन अवसर
पर अहिंसा के गुणों को अपनाए

LABH



अहिंसा
परमो धर्म

अहिंसा
परमो धर्म

"Ahimsa means not hurting or harming anyone, even with your words or actions."

Let us follow Ahimsa by Mann, Vachan and Kaya, by keeping our thoughts kind, our words gentle, and our actions non-hurtful.

'अहिंसा का अर्थ है अपने शब्दों या कार्यों से किसी को चोट या हानि न पहुँचाना'।

आइए हम मन, वचन और काया द्वारा अहिंसा का पालन करें। अपने विचारों को दयालु, अपने शब्दों को सौम्य और अपने कार्यों को हानिरहित बनाए।

"Say NO to HIMSA "

By Mann

X



By Vachan

X

Disrespect



By Kaya

X

Hurting



X

Angry and disturbed



X

Frightening others



X



X

Stubborn



X

Bullying



X

Disturbing



X

Blaming



X

Gossiping



X

Wrong actions in anger



"Say YES to AHIMSA "

By Mann



Comforting



By Vachan



Namo Arihantanam



By Kaya



Thinking good for all



Respectful speech



Being Helpful



Giving hope



Solace



Jivdaya



SORRY



Alertness



Fire free Diwali, Fear free Diwali



Didi : Kids, Do you all love your life?

Kids : Yes didi!

Didi : "Imagine you're deeply engrossed in your studies, relaxing, enjoying time with friends, immersed in a book, or peacefully asleep, and suddenly someone surprises you with a loud, explosive noise. How would you react?"

Naman : Oh! I may faint down... I will be frightened, my heart beats will increase, I will get angry and hit him...

Didi : Now imagine, you are surrounded by an atmosphere where at every other second different types of fire balls are falling...

Vandan : Oh.. No.. didi..!

Soham : Oh.. No.. Didi..! I am afraid of fire. Even a small burn hurts me a lot...I am shivering by its imagination only...

Didi : Then children what about the tiny creatures we unintentionally hurt when we burst crackers during Diwali? Have you ever thought about them?



Soham : No Didi! now I can understand and share in their feelings when they are genuinely hurt or frightened by fireworks."

Didi : "Soham, did you know that all creatures like plants, birds, animals, insects, and even tiny life forms in the air have a life and a desire to live? and they don't want to be harmed. When you set off fireworks, you might enjoy the bright lights and loud sounds for a few moments. But do you realize that these few seconds of fun can cause pain and even death to many innocent creatures? It's important to show kindness and care for every living being."

Parmatma Mahavir says,

‘सर्वेसिं जीवियं पियं’

Shree Aacharang Sutra(Chp:2-3)

Every creature loves to live



"During Diwali, bursting crackers can harm many innocent creatures who cannot speak. The result is that we may accumulate bad karma.

Celebrating Diwali without crackers means we save the lives of many creatures, which brings inner peace and happiness. The result is a heart full of compassion and the collection of good karma. Think about what you want to collect this Diwali □ good karma or bad karma?"

Soham :Didi! from this second, I am taking a vow not to crack fire crackers and I will try my best to explain to all my friends. And even to my brother Naman, who is very much fond of crackers...! Didi! Please give me Pachkkan..!

Kids : "Even I" ... "I also" ... "I too...!" (All of them took Pachkkan...)

Didi : Good! also encourage 5 of your friends to follow the same.



I _____ with my friends take a vow of not bursting Crackers this Diwali and thereby giving Abhay daan to 6 Kaay jiv
Prabhu! please give me such blessings that your mantra of alertness shall surface within me in every moment!

No.	Friends/Siblings Name

Tick the items that you will distribute to the needy



KINDNESS ACTIVITY



Clothes



Stationery



Sweets



DOSTI wali DIWALI



Time



Gifts



Smile

"Let's celebrate Diwali with a new friend who needs our support"

A day to light lamps of inner virtues like compassion, kindness, politeness, vinay, forgiveness, equanimity etc. and protect our soul from vices like anger, ego, deceit, greed, jealousy etc. thus bringing positivity and brightness into our lives...

"Kali Chuadas"

करुणा, दया, नम्रता, विनय, क्षमता जैसे आंतरिक गुणों को प्रकाशित करने का पावन अवसर और आत्मा से क्रोध, मान, माया, अहंकार, लालच, ईर्ष्या आदि विकारों को दूर करके जीवन में सकारात्मकता लाने का पावन अवसर यानि...

काली चौदस

Let us imbibe the virtues of **Truthfulness** on Kali Chaudas

काली चौदस पर सत्य के गुणों को अपनाए

"Truthfulness means always telling the truth and being honest."

Let us always speak Truth by Mann - thinking honestly, Vachan - saying truthful words and Kaya - always doing what is right.

सत्य यानी हमेशा सच बोलना और ईमानदार रहना। आईए हम हमेशा मन, वचन और काया के योगो से सत्य बोलें... यानी ईमानदारी से सोचे, सत्य वचनों का उपयोग करें और हमेशा वहीं कार्य करें जो सही हो।

"Lies may draw attention, but Truth always wins."



TRUTH B I N G O

Be TRUE to yourself and tick where you lied...

"I told Mom, 'I didn't eat any cookies,' but in reality, I did!"	"I assured my teacher that my homework's all done, but it wasn't."	"I told Dad, 'I brushed my teeth already,' but I actually didn't."
"I said to my friend, 'I didn't break that toy,' but I was the one who broke it."	"I told my sister, 'I didn't take any candy,' but I did sneak some."	"I assured Grandma that I finished my vegetables, but I didn't touch them."
"I told my parents, 'I didn't watch TV after bedtime,' but I secretly did."	"I said to my sibling, 'I didn't hit you,' even though I did."	"I promised to Mom that I cleaned up my room, but it's still messy."
"I told Dad, 'I didn't touch your phone,' but I played with it."	"I said to my parents, 'I didn't skip school,' but I did."	"I told my aunt, 'I didn't play with your accessories,' but I tried it on."
"I promised not to use my sister's computer, but I did when she wasn't looking."	"I told my friend, 'I didn't sneak a snack,' but I had some chips."	"I assured my parents, 'I didn't go into your closet,' but I did."
"I promised my cousin, 'I didn't use your art supplies,' but I did a drawing."	"I told my brother, 'I didn't play with your video games,' but I played them."	"I assured my friend, 'I didn't take your pen,' but I borrowed it."
"I said to Mom, 'I didn't draw on the walls,' but I used crayons on them."	"I told Dad, 'I didn't use your headphones,' but I listened to music secretly."	"I assured my parents, 'I didn't spill juice on the carpet,' but I did."
"I promised my sister, 'I didn't hide your keys,' but I misplaced them."	"I told my brother, 'I didn't touch the thermostat,' but I adjusted it."	"I said to my friend, 'I fed the dog,' but I didn't."
"I promised my parents, 'I didn't stay up past bedtime,' but I read under the covers."	"I told my mom, 'I didn't go into your purse,' but I peeked inside."	"I said to my parents, 'I didn't sneak a peek at my presents,' but I couldn't resist."

This Kali Chaudas let's accept our mistakes, try not to repeat them and there by lighten our soul

"Diwali celebrates the Enlightenment of Parmatma Mahavir Swami, reminding us that true victory lies in conquering our inner battles with non-violence and compassion.

Let's light our hearts with kindness, just as we light lamps to conquer darkness.


"Happy Diwali"

दीपावली के दिन परमात्मा महावीर स्वामी को नीर्वाण प्राप्त हुआ, यह हमें याद दिलाता है कि असली विजय अहिंसा और करुणा के साथ हमारे आंतरिक अवगुणों को जीतना है।

अपने मन में सभी जीवों के प्रति दया और अनुकंपा रखें यहीं दिपावली का संदेश है

शुभ दीपावली

Let us imbibe the virtues of **Non stealing** on Diwali
दिवाली पर **अचौर्य** के गुणों को अपनाए



"Non-stealing means never taking something that doesn't belong to you, and always asking permission before using someone else's things."

अचौर्य यानी...
किसी वस्तु-
सामान-संपत्ति को
छीनना नहीं, और
किसी और की चीज
का उपयोग करने से
पहले हमेशा
इजाजत मांगना।



Determine whether the following actions are morally 'right or wrong'.

I will not steal
by Mann-Vachan-Kaya



Write **R** for right
Write **W** for wrong

Stealing by Mann-Mind	Stealing by Vachan-Speech	Stealing by Kaya-Body
Thinking about taking someone's belongings without asking <input type="checkbox"/>	Promising to help a friend but not keeping your word <input type="checkbox"/>	Taking something from your sibling's room without permission <input type="checkbox"/>
Contemplating copying someone's work secretly <input type="checkbox"/>	Lying to your parents about your current location <input type="checkbox"/>	Borrowing a video game from a friend and never returning it <input type="checkbox"/>
Taking credit for someone else's idea <input type="checkbox"/>	Making up a story to avoid trouble, even though it's not true <input type="checkbox"/>	Copying someone's homework answers secretly or copied in exams <input type="checkbox"/>
Wishing you had the same clothes/toys as your friend and secretly planning to take it <input type="checkbox"/>	Blaming a mistake on someone else to avoid getting into trouble <input type="checkbox"/>	Taking a piece of your sibling's birthday cake without asking <input type="checkbox"/>
Hiding your friends contact number in your phone from your parents <input type="checkbox"/>	Coveting your neighbor's new bicycle and thinking about taking it without asking <input type="checkbox"/>	Borrowing a book and not returning it <input type="checkbox"/>
Keeping exam marks hidden from parents <input type="checkbox"/>	Reading someone's messages without their permission <input type="checkbox"/>	Have stolen things from supermarket <input type="checkbox"/>
Spreading someone else's personal information, like their address or phone number, without their consent <input type="checkbox"/>	Spreading false information about someone on social media to hurt their reputation <input type="checkbox"/>	Hacking someone's account <input type="checkbox"/>
Having a fake social media account <input type="checkbox"/>	Spreading false rumors about a classmate <input type="checkbox"/>	Sending messages using someone else's phone without their knowledge <input type="checkbox"/>

For all the sins that I have committed, I seek forgiveness. **Tassa Michamii Dukdam**

As we step into a **New year**,
let's aim to cultivate contentment and gratitude,
finding joy in what we have rather than constantly seeking more."
"A Happy New year"

इस नए साल में, हम अपने भीतर संतोष और आभार
के गुणों को विकसित करने की शुभ भावना करें,
और हमारे पास जो है, उसमें संतोष और आनंद पाने का प्रयत्न करें

**'नूतन वर्ष
की शुभकामनाएं'**

"On New year, let's embrace
the virtues of **Celibacy**"

नूतनवर्ष पर **ब्रह्मचर्य**
के गुणों को अपनाए

"A Happy New year"



"Celibacy" means having control over your wishes and desires,
Desire for new toys, clothes, tasty food, a new mobile phone etc. It
means finding satisfaction in everything we already have.

Reciting a Mantra can help us find satisfaction and overcome
excessive desires or greed."


'ब्रह्मचर्य' का मतलब है अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना जैसे नए
खिलौने, कपड़े, स्वादिष्ट खाने, नया मोबाइल
फ़ोन आदि की इच्छा पर नियंत्रण रखना।
यानि हमारे पास जो कुछ है, उसमें ही संतोष
पाना।

मंत्र जप से संतोष के गुणों में वृद्धि होती
है और अत्याधिक इच्छा या लालच जैसे
अवगुण दूर होते हैं।



"Gautam Swami, the first disciple of Parmatma Shree Mahavir Swami, had a deep attachment towards Parmatma. After Parmatma's "Nirvan" on Diwali, Gautam Swami felt sorrow. Through profound contemplation on non-attachment, he eventually overcame his sadness and achieved "Keval Gnan," which we now celebrate as New Year's Day."

‘गौतम स्वामी, परमात्मा श्री महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। उनका परमात्मा के प्रति गहरा स्नेह था। लेकिन दीपावली पर परमात्मा के ‘निर्वाण’ के बाद, गौतम स्वामी दुखी हो गए। अनासक्ति पर गहरी विचारणा करते हुए उन्होंने अपने विलाप को पार किया और ‘केवल ज्ञान’ प्राप्त किया, जिसे हम अब नए साल के रूप में मनाते हैं।’



Purity in thoughts will lead to prosperity. Lets welcome this New year with a Resolution. Lets be humble and devoted as Guru Gautam Swami.

"Kids, let's celebrate Diwali, the festival of colors by adding the colors of virtues to our lives."

For	Right Knowledge	I will teach Namaskar Mantra to non Jain
For	Right Vision	I will go for Dev-Guru Darshan
For	Right Conduct	I will watch T.V. only for one hour
For	Penance	I will perform Unodari Tapp (to eat less than hunger)
For	Generosity	I will always help the needy
For	Character	I will always speak truth
For	Positive thinking	I will always wish good for others
For	Saiyam	I will control my desires
For	Compassion	I will be polite and kind to all living beings

How this tradition started ?

When was the first time?



Bhai-Beej

We only know that Bhai-Beej is a day celebrated by brothers and sisters.

But, when was the first Bhai Beej celebrated do you know ?

After the Nirvan of Bhagwan Mahavir Swami on Diwali, his brother Nandivardhan was very sad. He was very upset. He felt lonely. Seeing his miserable condition, his sister Sudarshana invited him to her house and comforted him with lots of love. It was the 2nd day after Diwali...

So from that day all sisters invite their brothers to express their love and respect.

हम तो यही जानते हैं की भाई-बीज भाई-बहन द्वारा मनाये जानेवाला एक त्योहार है।

लेकिन, क्या आप जानते हैं बच्चों, पहली भाई-बीज कब मनाई गई थी? दिवाली के दिन भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद उनके भाई नंदीवर्धन बहुत दुःखी हुए। उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। उनकी ऐसी स्थिति देखकर उनकी बहन सुदर्शना ने उन्हें अपने घर बुलाया और बहुत प्यार से सांत्वना दी। वह दिवाली के बाद दूसरा दिन था... इसलिए उस दिन से सभी बहनें अपने भाइयों को अपना प्यार और सम्मान व्यक्त करने के लिए आमंत्रित करती हैं।




Kids have you heard about Sati Brahmi and Sati Sundari who had shown the path of liberation to their brother Bahubali? Bahubali was in deep meditation... In spite of doing sadhana for years, he couldn't attain kevalgnan as his sadhana was based on ego of not offering Vandana to his younger brothers. His sisters sadhviji, Sati Brahmi and Sati Sundari realises this and says... "Veera mora gajthi hetha utro, gaj thaki keval na hoy re.." Step down from the elephant(ego), unless you step down you won't get liberation. Sundari and Brahmi impart the truth to Bahubali. Bahubali identifies his ego and he attains Keval Gnan just with the thought of offering vandana to his brothers!

Be a sister like them who can show the right path, right vision to their brothers. Today, all sisters take a word from their brothers to serve Dev, Guru, Dhrama and parents and use the wealth in service and for good cause.

बच्चों, क्या तुमने सती ब्राह्मी और सती सुंदरी के बारे में सुना है जिन्होंने अपने भाई बाहुबली को मुक्ति का मार्ग दिखाया था ? बाहुबली गहरे ध्यान में थे... वर्षों तक साधना करने के बावजूद, उन्हें केवलज्ञान प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि उनकी साधना अपने छोटे भाईयों को वंदना न करने के अहंकार पर आधारित थी। उनकी बहनें साध्वीजी, सती ब्राह्मी और सती सुंदरी को इसका एहसास होता है और वे कहती है... वीरा मोरा गज से नीचे उतरो, गज थकी केवल न होयरे... जब तक हाथी रूपी(अहंकार) से नीचे नहीं उतरेंगे, तुम्हें नहीं मिलेगी मुक्ति। सती सुंदरी और सती ब्राह्मी बाहुबली को सच्चाई बताती है। बाहुबली अपने अहंकार को पहचान लेते हैं और अपने बड़े भाईयों को वंदना करने का विचार मात्र से ही उन्हें केवलज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तब ब्राह्मी और सुंदरी अपने केवलज्ञानी भाई को वंदना करती है।

चलो हम भी ब्राह्मी और सुंदरी जैसी बहनें बनें जो अपने भाईयों को सही रास्ता, सही द्रष्टि दिखा सकें। आज सभी बहनें अपने भाईयों से देव, गुरु, धर्म और माता- पिता की सेवा करने का और धन का उपयोग सेवा और अच्छे कार्य करने का वचन लें।





"Aparigraha is like not being too greedy for accumulating more and more stuff but being happy with the love and bond that you share with for each other. Instead of collecting things, come together and make others smile."

An fun filled activity for both brothers and sisters.

Try to spread as much happiness as you can by doing the following activity together

✔ TICK WHEREVER YOU WANT TO JOIN IN THESE ACTIVITIES

Brothers and sisters can do nice things together to help people who need it:

VIRTUES	ACTIVITIES	HE/SHE
1. Share	: Share your things with those who need it together.	<input type="checkbox"/>
2. Teach	: Help other kids by giving them school stuff.	<input type="checkbox"/>
3. Fix things	: Help mom by cleaning up your own room together.	<input type="checkbox"/>
4. Raise money	: Collect money for charity or use your pocket money.	<input type="checkbox"/>
5. Care	: Always be kind and caring towards all jiv.	<input type="checkbox"/>
6. Share food	: Share some of your food with those who are hungry.	<input type="checkbox"/>
7. Give toys	: Share toys and games with kids who don't have many.	<input type="checkbox"/>
8. Visit seniors	: Visit elderly people in a nearby home and spend time.	<input type="checkbox"/>
9. Make cards	: Create cards for people who might be feeling lonely or sad.	<input type="checkbox"/>
10. Donate clothes	: Give clothes to kids who need them.	<input type="checkbox"/>
11. Read together	: Read a story to younger kids to make them happy.	<input type="checkbox"/>
12. Smile	: Smile at people you meet; it can make their day better.	<input type="checkbox"/>

These points promote bonding, kindness, and cooperation between siblings while also teaching important life values.



Gnan Panchami

It is the 5th day after New Year.

Dear children,

Many of you have complaint that, I can't remember anything... I learn everything but forget during examinations... I have exam phobia... so on..

Then come, and solve all your problems related to knowledge, and feel the difference.

Here is a golden opportunity to increase your memory power and to decrease your exam phobia...

"Perform Gnan Pujan" Directed by our Param Gurudev

Shree Namramuni M.S.

On 17/11/23 at Parasdham, Rupaytan road, Bhavnath, Girnar

Gnan Pujan can be performed by everyone to enlighten our own knowledge and let go off ignorance inside us.

Join LIVE



• <https://live.parasdham.org> &  zoom ID: 208 108 1008 | Passcode: 108

October 2023



LÔOK N LEARN

Tapasvi no
Jay Jay kar



Anumodna
Anumodna

Baal Tapasvi of Look N Learn Jain Gyan Dham

No.	Name	Age	LNL Centre	Penance-Tapp
1	Dharmik Gandhi	13 yrs	Bhavnagar	Varshitap with upvaas
2	Bhavy Shah	14 yrs	Bhavnagar	Varshitap with upvaas
3	Vishwa Gandhi	16 yrs	Bhavnagar	Varshitap with upvaas
4	Dhruv Mehta	18 yrs	Rajkpt	Varshitap with upvaas
5	Zarana Kamdar	10 yrs	Junagadh	Varshitap with ekasana
6	Devansh Kamdar	13 yrs	Junagadh	Varshitap with ekasana
7	Zankhana Kamdar	13 yrs	Junagadh	Varshitap with ekasana
8	Moxit Kamdar	9 yrs	Junagadh	Varshitap with ekasana
9	Hetavi Bavisi	10 yrs	Junagadh	Ayambil Siddhi Tapp
10	Param Vora	12 yrs	Borivali	Ghandhar Tapp
11	Vatsal Doshi	14 yrs	ex student	Siddhitapp
12	Jiya Dodhiwala	15 yrs	Rajkot	Anu Saratobhadra Tapp-ekasna
13	Sanghvi	8 yrs		Anu Saratobhadra Tapp-ekasna
14	Krishi Doshi	17 yrs	ex stu.	45 upvaas
15	Nishka shah	15 yrs	Ahemedabd	16 upvaas
16	Divyam Kotecha	16 yrs	Beed	16 upvaas
17	Aayushi shah	20 yrs	Dubai	16 upvaas
18	Neev Bhayani	13 yrs	Dubai	16 upvaas
19	Ruchi Jatkiya	12 yrs	Una	12 upvaas
20	Mohit Shah	15 yrs	Kolkata	11 upvaas
21	Kavya Dalal	13 yrs	ex student	11 upvaas
22	Vignata Mehta	13 yrs	Mumbai	10 upvaas
23	Shreya Nahar	9 yrs	Beed	9 upvaas
24	Nishkarshi	11 yrs	Ahemedabd	8 upvaas
25	Vaishvi Shah	12 yrs	Ahemedabd	8 upvaas
26	Hiya Shah	9 yrs	Ahemedabd	8 upvaas
27	Rhythm Parakh	12 yrs	Aurangabad	8 upvaas
28	Krishna Chheda	12 yrs	Dadar	8 upvaas
29	Kenisha Chheda	14 yrs	Dadar	8 upvaas
30	Freya Shah	13 yrs	Dubai	8 upvaas
31	Hit Doshi	10 yrs	Gondal	8 upvaas
32	Nishi Khilosiya	14 yrs	Gondal	8 upvaas
33	Diya ranpariya	10 yrs	Jamnagar	8 upvaas
34	Ishika Halvadiya	15 yrs	Junagadh	8 upvaas
35	Vama Shah	11 yrs	Malad	8 upvaas
36	Zian Thangellaply	12 yrs	Malad	8 upvaas
37	Mauli Doshi	10 yrs	Mira road	8 upvaas
38	Shraadha Mehta	12 yrs	Morbi	8 upvaas
39	Yashvi Shah	12 yrs	Mulund	8 upvaas

40	Purti Parakh	12 yrs	Nasik Bhavnagar	8 upvaas
41	Diti ShahII	11 yrs	PD Ghatkopar	8 upvaas
42	Ishika Shah	12 yrs	PD Ghatkopar	8 upvaas
43	Riva Shah	12 yrs	PD Ghatkopar	8 upvaas
44	Divya Doshi	12 yrs	PD Ghatkopar	8 upvaas
45	Aayush gala	14 yrs	PD Ghatkopar	8 upvaas
46	Hiya Gala	9 yrs	PD Ghatkopar	8 upvaas
47	Malak Gada	12 yrs	Pawandham	8 upvaas
48	Darsh Shah	9 yrs	Pawandham	8 upvaas
49	Bhavya Halwaidya	12 yrs	Raipur	8 upvaas
50	Heer ShahII	11 yrs	Rajkot	8 upvaas
51	Pranshi Shah	13 yrs	Rajkot	8 upvaas
52	Diyanshi Shah	14 yrs	Rajkot	8 upvaas
53	Kashvi Sanghavi	9 yrs	Rajkot	8 upvaas
54	Reeva Solani	15 yrs	Rajkot,Royal Park	8 upvaas
55	Diya Kamdar	11 yrs	Vasai	8 upvaas
56	Manvir Kamdar	13 yrs	Vasai	8 upvaas
57	Charmi Atha	6 yrs	Zalavad Nagar	8 upvaas
58	Roshni Kotecha	12 yrs	Latur	7 upvaas
59	Khusbu Kamani	14 yrs	Junagadh	6 upvaas
60	Kavish Sanghavi	9 yrs	Kolkata	6 upvaas
61	Lehak Gandhi	10 yrs	Malad	4 upvaas
62	Heer Parekh	10 yrs	Matunga	4 upvaas
63	Hriday Maniar	11 yrs	Matunga	4 upvaas
64	Bhavya Jain	12 yrs	Mumbai	4 upvaas
65	Anushka Bothra	10 yrs	Beed	Atham
66	Virat Kotecha	11 yrs	Beed	Atham
67	Shrusti sancheti	12 yrs	Beed	Atham
68	Kshitija Nagar	12 yrs	Beed	Atham
69	Aagam Sanghvi	8 yrs	Dubai	Atham
70	Abhay Kamdar	13 yrs	Junagadh	Atham
71	Viraj Sanghavi	12 yrs	Kolkata	Atham
72	Divya Thosani	15 yrs	Kolkata	Atham
73	Ekansh Bardiya	9 yrs	Manmad	Atham
74	Bhavya Somani	11 yrs	Mira Road	Atham
75	Deshna Bagrecha	13 yrs	Pimpalgaon	Atham
76	Vritika Parekh	13 yrs	Pimpalgaon	Atham
77	Sharayu Pagariya	13 yrs	Pimpalgaon	Atham
78	Darshita Bhatevara	13 yrs	Pimpalgaon	Atham
79	Swasti Vora	10 yrs	Rajkot	Atham
80	Tanishka Mehta	12 yrs	Rajkot	Atham
81	Tanuj Parekh	13 yrs	Rajkot	Atham
82	Prachi Sheth	13 yrs	Rajkot	Atham
83	Diya Shah	9 yrs	Tollygung	Atham
84	Moksha Brahmecha	10 yrs	Aurangabad	Atham

300+ children completed Dravya Tapp Aaradhana

Tapasvi no
Jay Jay kar

October 2023

19

LOOK N LEARN

Anumodna
Anumodna

Inspired By Rashtrasant Param Gurudev
Shree Namramuni Maharaj Saheb

"PANCH MAHAVRATDHARI DARSHAN"



DARSHANAM VANDANAM



Kids were suppose to go to
near by Dharma Sthanak
and offer Vandana to
Puja Sadhu-Sadhviji
during 8 days of
"Parvadhiraaj Paryushan"

All the 1500+ kids that participated are Winners
But, few were lucky to win the Lucky draw ...

1500+ Kids Participated



Lucky winners

1st Winners

Jinali Kundalia

LNL Jamnagar



2nd Winners

Divya Jain

LNL Aurangabad



3rd Winners

Yuvraj Sheth

Ghatkopar Parasdham

